



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 13-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार दिनांक 24 जनवरी, 2018
(4 माघ, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का0आ0 4/के0अ0 2/1974/धा0 7/2018, दिनांक 24 जनवरी, 2018 —उप मण्डल थानेसर तथा उप मण्डल शाहबाद में शामिल तहसील लाडवा तथा उप तहसील बबैन के क्षेत्र को निकालते हुए उनकी सीमाओं को परिवर्तित करते हुए और तहसील लाडवा तथा उप तहसील बबैन के क्षेत्र के लिए नया उप मण्डल बनाते हुए जिसका मुख्यालय लाडवा होगा। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	79—82
भाग IV	शुद्धि—पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2018

संख्या का०आ० 4/के०अ० 2/1974/घा०7/2018 — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, उपमण्डल थानेसर तथा उपमण्डल शाहाबाद में शामिल तहसील लाडवा तथा उपतहसील बाबैन के क्षेत्र को निकालते हुए, उनकी सीमाओं को परिवर्तित करते हैं और तहसील लाडवा तथा उपतहसील बाबैन के क्षेत्र के लिए नया उपमण्डल बनाते हैं, जिसका मुख्यालय लाडवा होगा। गांव की सूची तथा हदबस्त नीचे विनिर्दिष्ट है:—

विशिष्टियां

क्रम संख्या	गांव का नाम	हदबस्त संख्या	क्रम संख्या	गांव का नाम	हदबस्त संख्या
1.	निवारसी	336	38.	भालड	215
2.	दबखेडा	339	39.	धनौरा	59
3.	जलालुदीन माजरा	337	40.	मेहरा	57
4.	हलालपुर	334	41.	खरकाली	56
5.	प्रहलादपुर	331	42.	सहजादपुर	211
6.	लाडवा	76	43.	जोगीमाजरा	212
7.	डेरा	60	44.	दुगारी	213
8.	बडाचपुर	77	45.	बडतौली	165
9.	बराहन	82	46.	गजलाना	166
10.	लाठी धनौरा	73	47.	बीड बडतौली	160
11.	घडौला	335	48.	नखरोजपुर	164
12.	भालडी	216	49.	महुवाखेडी	161
13.	बन	62	50.	जैनपुर	78
14.	खेडी दबलान	64	51.	बरोट	81
15.	समालखा	63	52.	सलेमपुर	85
16.	बुढा	61	53.	डुडा	83
17.	छलौंड़ी	67	54.	डुडी	84
18.	जन्देहडा	66	55.	गादली	86
19.	बडशामी	65	56.	गुढा	157
20.	बनी	68	57.	बहलोलपुर	130
21.	बदरपुर	69	58.	सुलतानपुर	155
22.	सूरा	50	59.	छपरा	158
23.	बपदी	75	60.	बाबैन	145
24.	बंडौंदा	72	61.	हरीपुरा	146
25.	बडौंड़ी	79	62.	रुडकी	333
26.	गोबिन्दगढ	80	63.	गुहन	152
27.	भूतमाजरा	71	64.	बगरट	346
28.	मुरादनगर	70	65.	खैरा	345
29.	बपदा	74	66.	खैरी	343
30.	बकाली	58	67.	लोहाडा	338
31.	धान्धला	214	68.	टाटका	109
32.	टाटकी	347	69.	खीडकी विरान	332
33.	भगवानपुर	111	70.	राम नगर	156
34.	बीट	144	71.	कालीराणों	154
35.	रामपुरा	108	72.	संघौर	163
36.	कसीथल	110	73.	बूखडी	150
37.	सुजरी	115	74.	जन्ढौला	149

क्रम संख्या	गांव का नाम	हदबस्त संख्या	क्रम संख्या	गांव का नाम	हदबस्त संख्या
75.	मण्डोखरा	140	87.	धिसरपडी	148
76.	रामनगर	112	88.	फालसंडा जाटान	133
77.	हमीदपुर	143	89.	फालसंडा रागंडान	162
78.	ईशरहेडी	138	90.	लखमडी	128
79.	सुजरा	141	91.	बुहावी	127
80.	बीड सुजरा	139	92.	बीड मंगौली	129
81.	बीड कालवा	137	93.	मगौली रागंडान	130
82.	कनौनी	142	94.	सुनारियां	135
83.	कालवा	136	95.	बेरथला	124
84.	रामशरण माजरा	147	96.	धनानी	134
85.	कन्दौली	151	97.	मगौली जटान	131
86.	भैणी	153	98.	सिम्भलवाल	132

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 24th January, 2018

No. S.O. 4/C.A. 2/1974/S.7/2018.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Governor of Haryana after consultation with the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana hereby alters the limits of sub-division Thanesar and sub-division Shahbad by excluding therefrom the area comprising of Ladwa tehsil and sub-tehsil Babain by creating a new sub-division for the area of Ladwa tehsil and sub-tehsil Babain with headquarter at Ladwa. The list of villages and hadbast are specified as under:-

Specifications

Sr. No.	Village Name	Hadbast Number	Sr. No.	Village Name	Hadbast Number
1.	Niwarsi	336	38.	Bhalar	215
2.	DabKhera	339	39.	Dhanora	59
3.	Jalaludin Majra	337	40.	Mehra	57
4.	Halal Pur	334	41.	Kharkali	56
5.	Pehladpur	331	42.	Sehjad Pur	211
6.	Ladwa	76	43.	Jogi Majra	212
7.	Dera	60	44.	Dugari	213
8.	Brach Pur	77	45.	Bartoli	165
9.	Barhan	82	46.	Gajlana	166
10.	Lathi Dhnora	73	47.	Bir Bartoli	160
11.	Gharola	335	48.	Nakhrojpur	164
12.	Bhalidi	216	49.	Mahuwa Kheri	161
13.	Ban	62	50.	Jain Pur	78
14.	Kheri Dab Dlan	64	51.	Baraut	81
15.	Samalakha	63	52.	Salempur	85
16.	Budha	61	53.	Duda	83
17.	Chalondi	67	54.	Dudi	84
18.	Jandehra	66	55.	Gadli	86
19.	Barsami	65	56.	Gudha	157
20.	Bani	68	57.	Behlolpur	330
21.	Badarpur	69	58.	Sultanpur	155
22.	Sura	50	59.	Chapra	158
23.	Bapdi	75	60.	Babain	145
24.	Baronda	72	61.	Haripura	146
25.	Barondi	79	62.	Rurki	333
26.	Gobindgarh	80	63.	Guhan	152
27.	Bhut Majra	71	64.	Bagrat	346
28.	Murad Nagar	70	65.	Khaira	345
29.	Bapda	74	66.	Khairi	343
30.	Bakali	58	67.	Lohara	338
31.	Dhandla	214	68.	Tatka	109
32.	Tatki	347	69.	Khirki Viran	332
33.	Bhagwanpur	111	70.	Ram Nagar	156
34.	Bint	144	71.	Kalirano	154
35.	Ram Pura	108	72.	Sanghor	163
36.	Kasithal	110	73.	Bhukhari	150
37.	Sujri	115	74.	Jandhola	149

Sr. No.	Village Name	Hadbast Number	Sr. No.	Village Name	Hadbast Number
75.	Mando Khara	140	87.	Ghisarpari	148
76.	Ram Nagar	112	88.	Phalsanda Jattan	133
77.	Hamid pur	143	89.	Phalsanda Rangran	162
78.	Isherheri	138	90.	Lakhmari	128
79.	Sujra	141	91.	Buhavi	127
80.	Bir Surja	139	92.	Bir Mangoli	129
81.	Bir Kalwa	137	93.	Mangoli Rangran	130
82.	Kanoni	142	94.	Sunarian	135
83.	Kalwa	136	95.	Berthala	124
84.	Ramsaran Majra	147	96.	Dhanani	134
85.	Kandoli	151	97.	Mangoli Jattan	131
86.	Bhaini	153	98.	Simbalwal	132

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administrative of Justice Department.